

पूछताछ: नकली आंवला तेल, गुलाब जल व रैपर जब्त, धंधेबाज भी किया गया गिरफ्तार

जहानाबाद



- काको में कंपनी के अधिकारियों की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने की कार्रवाई , हो रही पूछताछ नामचीन कंपनियों के नाम पर नकली उत्पादों के निर्माण और बिक्री का एक बड़ा मामला काकाे बाजार से सामने आया है। स्थानीय थाने की पुलिस ने डाबर कंपनी के एक अधिकारी के साथ बाजार टोला में छापेमारी कर डाबर कंपनी की भारी मात्रा में नकली आंवला तेल, गुलाब जल, तेल के डब्बे और रैपर बरामद की है। जब्त सामग्री में आंवला तेल का 90 एमएल का भरा हुआ 1007 बोतल, 90 एमएल बोतल का 5400 रैपर, 120 एमएल गुलाब जल का 404 खाली बोतल, 7000 पीस रैपर, गुलाब जल की शीशी का नकली ढक्कन शामिल है।

इतनी बड़ी मात्रा में कंपनी की नकली पदार्थ और सामग्री की बरामदगी देख कंपनी के अधिकारियों के होश उड़ गए। नकली उत्पाद व सामग्री के निर्माण और बिक्री किए जाने के मामले में कंपनी के जांच अधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने काको बाजार के एक व्यवसायी मो. हासिम के खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद उक्त धंधेबाज को जेल भेज दिया गया है।

नकली उत्पादों के निर्माण और बिक्री को लेकर घोसी व शहर में पहले भी हो चुकी है कार्रवाई, केस दर्ज हुआ लेकिन नहीं पकड़े गए जालसाज

थानाध्यक्ष ने कहा- गुप्त सूचना पर की गई है कार्रवाई

थानाध्यक्ष अक्षयबर सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना पर डाबर कंपनी के अधिकारी रंजीत कुमार सिंह के साथ पुलिस ने मंगलवार की रात बाजार टोला निवासी मो. हासिम के घर छापेमारी की। छापेमारी में डाबर इंडिया लिमिटेड का करीब 1000 बोतल तेल समेत भारी मात्रा में रैपर भी बरामद किया गया। हालांकि पुलिस को देख धंधेबाज भाग निकला था। लेकिन, बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि उक्त धंधेबाज काफी दिनों से चोरी छिपे कंपनी के नकली उत्पाद पर कंपनी का लेबल लगा कर बाजार में बेचता था। इस बात की जानकारी कंपनी के बड़े अधिकारियों को मिल गई। जानकारी मिलने के बाद कंपनी के जांच अधिकारी ने मंगलवार को हासिम की दुकान पर धावा बोला। कंपनी के इस कार्रवाई से नकली उत्पाद बनाने और बेचने वालों में हड़कंप मच गया है।

बड़ी कंपनियों के रैपर बना बाजार में लंबे समय से हो रहा गोरखधंधा

बड़ी-बड़ी कंपनियों के नकली रैपर बना बाजार में उत्पाद बेचने का यह गोरखधंधा जिले के लिए नहीं है। काको में छापेमारी से पहले कई कंपनियों के अधिकारियों ने शहर और घोसी में छापेमारी कर इस गोरखधंधे का खुलासा किया है। इस संबंध में नगर थाने में दो व घोसी थाने में इस तरह के अपराध के एक मामला पहले से ही दर्ज है। संबंधित जालसाजों के गिरोह पर कार्रवाई नहीं होने से ऐसे लोगों का मनोबल नहीं गिर रहा है। लोगों को नकली उत्पाद देकर उनकी जेबें काटी जा रही है तो संबंधित कंपनियों को भी इससे भारी चूना लग रहा है। लेकिन, इसके बावजूद नकली उत्पाद बनाने का धंधा नहीं थमा। लोगों का कहना है कि यह धंधा जोर शोर से चल रहा है। लोगों का मानना है कि यदि कंपनी द्वारा लगातार छापेमारी की जाये तो हर बाजार और कस्बे से ऐसे धंधेबाज पकड़े जा सकते हैं और फिर इस तरह के गोरखधंधे पर लगाम भी कसा जा सकता है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/jehanabad/news/fake-gooseberry-oil-rose-water-and-wrappers-seized-businessman-also-arrested-128145070.html>